



Telephone : 044 – 28889392, 28415702
E-Mail : investor@iobnet.co.in
FAX : 044 – 28585675

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केंद्रीय कार्यालय- पोस्ट बॉक्स सं 3765, 763 अण्णा सालै, चेन्नै 600 002

Indian Overseas Bank

Central Office: P.B.No.: 3765, 763 Anna Salai, Chennai 600 002

Investor Relations Cell

IRC/228/2018-19

11.10.2018

The Vice President

National Stock Exchange Limited

"Exchange Plaza", C-1, Block G
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai- 400 051

The Senior General Manager

Dept. of Corporate Services

BSE Limited

Floor 1, P.J. Towers, Dalal Street
Mumbai 400 001

Dear Sir,

Extraordinary General Meeting (EGM) to be held on 02nd November 2018
- Notice to Shareholders and Newspaper Publications

We refer our letter No. IRC/206/2018-19 dated 05.10.2018 intimating convening of an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Bank on 2nd November 2018 at Chennai.

In this regard, we have published Notice to Shareholders in all editions of three Newspapers viz., The Hindu (Tamil), Business Standard (Hindi) and Business Standard (English) on 09.10.2018 for the information of our shareholders. We enclose newspaper publication of the Notice to Shareholders.

Notice to shareholders is also available in our Bank's website under the following link:

https://www.iob.in/upload/CEDocuments/iobEGM_NOTICE_02112018.pdf

Please take the above intimation in your records.

Thanking You

Yours faithfully,

Deepa Chellam
Company Secretary

Encl: As above





Indian Overseas Bank
Investor Relation Cell, Central Office, Chennai

இந்து தமிழ்
கிளை



इण्डियन ओवरसीज बैंक
Indian Overseas Bank

Central Office, 763, Anna Salai, Chennai - 600 002

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that an **Extraordinary General Meeting (EGM)** of the Shareholders of **INDIAN OVERSEAS BANK** will be held on **Friday, 2nd November 2018 at 10.00 a.m.** at **Rani Seethai Hall, 603 Anna Salai, Chennai 600 006** to transact the following business as **Special Resolution** as contained in the notice of the meeting dated 03.10.2018:

1. To create, offer, issue and allot up to 137,30,10,821 (One Hundred and Thirty Seven Crores Thirty Lakhs Ten Thousand Eight Hundred and Twenty One) equity shares of Rs.10/- each (Rupees Ten Only) for cash at Issue Price of Rs.15.71 per equity share (including premium of Rs. 5.71 per equity share) aggregating up to Rs.2157 crore (Rupees Two Thousand One Hundred and Fifty Seven Crore only) on preferential basis to Government of India (President of India).

By Order of the Board of Directors
For Indian Overseas Bank
(R SUBRAMANIAKUMAR)
Managing Director & CEO

Place: Chennai
Date : 03.10.2018

Notes:

1. The voting for Agenda item shall be conducted by remote e-voting and voting at the meeting. Each shareholder shall have one vote for each share held by him / her as on the Cut-off Date i.e. 25th October 2018, to vote on the item in the Agenda. However no shareholder other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in excess of ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.
2. The Bank is despatching notice to the shareholders either by email to the shareholders whose email ids are registered with the Depository / Bank or by courier to the address registered with the Bank.
3. Copy of the Notice is also available on the website of the Bank viz. www.iob.in together with Proxy Form and Attendance Slip.
4. In terms of Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, your Bank is providing Remote e-voting facility to shareholders for the agenda to be transacted in the Extraordinary General Meeting, for which Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) has been appointed as e-voting agency. Shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com. In case of any queries, write to CDSL at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact CDSL at 1800225533.
5. The Remote e-voting period commences on 30th October 2018 at 9.00 a.m. (IST) and ends on 1st November 2018 at 5.00 p.m. (IST) and Remote e-voting shall be disabled thereafter. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or dematerialised form, as on the Cut-off Date, may cast their vote electronically. To enable shareholders who have not voted through remote e-voting, the Bank will be conducting voting at the venue of the meeting.
6. Kindly note that once the vote is cast electronically, the shareholders cannot modify or vote on poll at the venue, but can attend the Meeting and participate in the discussions.
7. The results shall be placed on the Bank's website: www.iob.in and informed to Stock Exchanges as well as CDSL.
8. Shareholders are requested to update and intimate their e-mail ids, their telephone and mobile numbers to enable the Bank to contact in case of need.

THE HINDU (TAMIL) 09.10.2018





Indian Overseas Bank
Investor Relation Cell, Central Office, Chennai

बिज़नेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली | 9 अक्टूबर 2018 मंगलवार

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
केन्द्रीय कार्यालय 763, अण्णा साले, चेन्नै-600 002

शेयरधारकों को नोटिस

एतद्वारा नोटिस दी जाती है कि दिनांकित 03.10.2018 को दी गई बैठक की नोटिस में निहितानुसार विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित कारोबार को संपन्न करने के लिए **सुधार दिनांक- 2 नवंबर 2018 10.00 बजे** रात्री सीटी हाल, 603, अण्णा साले, चेन्नै - 600006 में इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक आयोजित की जाएगी:

1. भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को अधिमानीय आधार पर 137,30,10,821 (एक सौ सैतिस करोड़ तीस लाख दस हजार आठ सौ इक्कीस) इण्डियन शेयरों को सृजित, प्रस्तावित, निर्मित और आवंटित करने के लिए, जहाँ प्रत्येक शेयर का मूल्य रु.10 (एक रुपये दस मात्र) है और जिस रु.15.71 प्रति इण्डियन शेयर (रु.5.71 प्रति इण्डियन शेयर के प्रीमियम सहित) के निर्गमन मूल्य पर, जिसकी सम्मिलित रकम रु. 2157 करोड़ (एकपच्चे दो हजार एक सौ सत्तारम करोड़ मात्र) है, को नकद के प्रति आवंटित किया जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कुले इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
(आर. सुरभग्यम्कृष्णर)
प्रथम निदेशक व सीईओ

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 03.10.2018

नोटिस:

1. निदेशकों के द्वारा से संबंधित कार्यवाही के लिए नोटिस रिफ्लेक्ट ई-वोटिंग द्वारा और बैंक में नोटिस द्वारा संपन्न की जाएगी। कार्यवाही में निहित मसौ पर 25 अक्टूबर 2018 को वोट करने के लिए पारित प्रत्येक शेयर के लिए हर शेयरधारक को पास एक वोट होगा। फिर भी, बैंक सरकार को छोड़कर कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के 10 प्रतिशत से अधिक के वोटिंग अधिकारों का उपयोग करने का पात्र नहीं होगा।
2. बैंक द्वारा शेयरधारकों को यह नोटिस दिनांकित/बैंक के सभी संबंधित उम्मेदों ई-वोटिंग पर ई-मेल द्वारा अथवा बैंक के यहाँ संबंधित उम्मेदों पर पर सफ़ियर द्वारा भेजा जा रहा है।
3. प्रोक्सी फॉर्म और उपस्थिति पत्रा सहित नोटिस की प्रतीक बैंक की वेबसाइट www.job.in पर भी उपलब्ध है।
4. सभी (एलओडीआर) विनिर्माण, 2015 के विनिर्माण 44 से संदर्भ में आने वाले बैंक के असाधारण सामान्य बैठक में कार्यवाही पर कार्यवाही करने के लिए शेयरधारकों के लिए रिफ्लेक्ट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की है, जिसके लिए केंद्रीय इन्फ़ॉर्मेटिकी सेवाएं (इंफ़ो) सिस्टिम (ई-वोटिंग) को ई-वोटिंग एप्लिकेरी के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके लिए शेयरधारक ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग इन करें। किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में helpdesk.evoting@cdslindia.com पर सीडीएसएल को लिखें अथवा सीडीएसएल को 1800 22 55 33 पर संपर्क करें।
5. ई-वोटिंग की अवधि 30 अक्टूबर 2018 को सुबह 9.00 बजे शुरू होगी और 1 नवंबर 2018 को रात 6.00 बजे समाप्त हो जाएगी परंतु इसके बाद रिफ्लेक्ट ई-वोटिंग उपलब्ध नहीं होगी। बैंक के शेयरधारक जो वोट-अंक प्रिंटर पर शेयर भौतिक या डिजिटल रूप में धारित करते हैं, वे अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकते हैं। उन शेयरधारकों के लिए जो रिफ्लेक्ट ई-वोटिंग के जरिए वोट नहीं कर पाए, उनके लिए बैंक बैठक के स्थान पर ही वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न करेगा।
6. भ्रष्टाचार नोट को भी पता पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर देने के पश्चात शेयरधारक बैठक के स्थान पर न ले मतदान कर सकते हैं और न ही बदल सकते हैं। किंतु बैठक में भाग ले सकते हैं और धारा में सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

संश्लेषण बैंक की वेबसाइट www.job.in पर प्रदर्शित किए जाएंगे और इसकी संपन्न स्टॉक एक्सचेंजों के नियंत्रण के तहत सीडीएसएल को भी दी जाएगी।

इस नोटिस को अनुरोध है कि वे अपना ई-मेल पता तथा अपना टेलिफोन नंबर अवधान कर सकें। बैंक को ई-मेल के माध्यम से संपर्क करने के लिए बैंक के ई-मेल पता पर संपर्क कर सकें।



Business Standard (Hindi) 09.10.2018



Indian Overseas Bank
Investor Relation Cell, Central Office, Chennai

Business Standard

CHENNAI |
TUESDAY, 9 OCTOBER 2018



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
Central Office, 763, Anna Salai, Chennai - 600 002

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that an **Extraordinary General Meeting (EGM)** of the Shareholders of **INDIAN OVERSEAS BANK** will be held on **Friday, 2nd November 2018 at 10.00 a.m.** at **Rani Seethai Hall, 603 Anna Salai, Chennai 600 006** to transact the following business as **Special Resolution** as contained in the notice of the meeting dated 03.10.2018:

1. To create, offer, issue and allot up to 137,30,10,821 (One Hundred and Thirty Seven Crores Thirty Lakhs Ten Thousand Eight Hundred and Twenty One) equity shares of Rs.10/- each (Rupees Ten Only) for cash at Issue Price of Rs.15.71 per equity share (including premium of Rs. 5.71 per equity share) aggregating up to Rs.2157 crore (Rupees Two Thousand One Hundred and Fifty Seven Crore only) on preferential basis to Government of India (President of India).

By Order of the Board of Directors
For Indian Overseas Bank
(R SUBRAMANIKUMAR)
Managing Director & CEO

Place: Chennai
Date : 03.10.2018

Notes:

1. The voting for Agenda item shall be conducted by remote e-voting and voting at the meeting. Each shareholder shall have one vote for each share held by him / her as on the Cut-off Date i.e. 25th October 2018, to vote on the item in the Agenda. However no shareholder other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in excess of ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.
2. The Bank is despatching notice to the shareholders either by email to the shareholders whose email ids are registered with the Depository / Bank or by courier to the address registered with the Bank.
3. Copy of the Notice is also available on the website of the Bank viz. www.iob.in together with Proxy Form and Attendance Slip.
4. In terms of Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, your Bank is providing Remote e-voting facility to shareholders for the agenda to be transacted in the Extraordinary General Meeting, for which Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) has been appointed as e-voting agency. Shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com. In case of any queries, write to CDSL at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact CDSL at 1800225533.
5. **The Remote e-voting period commences on 30th October 2018 at 9.00 a.m. (IST) and ends on 1st November 2018 at 5.00 p.m. (IST)** and Remote e-voting shall be disabled thereafter. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or dematerialised form, as on the Cut-off Date, may cast their vote electronically. To enable shareholders who have not voted through remote e-voting, the Bank will be conducting voting at the venue of the meeting.
6. Kindly note that once the vote is cast electronically, the shareholders cannot modify or vote on poll at the venue, but can attend the Meeting and participate in the discussions.
7. The results shall be placed on the Bank's website: www.iob.in and informed to Stock Exchanges as well as CDSL.
8. Shareholders are requested to update and intimate their e-mail ids, their telephone and mobile numbers to enable the Bank to contact in case of need.



Business Standard (English) 09.10.2018